



ऑनलाइन पटाखा विक्रेता ट्रेनिंग खुल गई है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 अक्टूबर, 2021) – उन विक्रेताओं के लिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रक्रिया खुल गई है और उपलब्ध है, जिनकी 4 नवंबर को दीवाली (Diwali) और 31 दिसम्बर को नववर्ष (New Year's Eve) पर पटाखे बेचने की योजना है। वर्ष के शुरू में इसी प्रकार की ट्रेनिंग, विक्टोरिया डे (Victoria Day) और कॅनेडा डे (Canada Day) को भी उपलब्ध करवाई गई थी।

विक्रेताओं को पटाखे बेचने का लाइसेंस दिए जाने से पहले, उनके लिए ट्रेनिंग आवश्यक है और इस कोर्स को पूरा करना जरूरी है।

कोर्स के लिए रजिस्टर करने हेतु विक्रेता, ब्रैम्पटन फायर प्रीवेंशन (Brampton Fire Prevention) डिवीजन को 905.874.2740 पर फोन कर सकते हैं या fire.prevention@brampton.ca पर ईमेल कर सकते हैं और कोर्स के विवरण, आवेदक को ईमेल कर दिए जाएंगे।

कोविड-19 (COVID-19) के कारण लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी पाबंदियों के कारण, ट्रेनिंग पांच आसान चरणों में, ऑनलाइन फॉर्मेट में प्रदान की जाएगी:

1. 2021 फायरवर्क्स रिटेलर (2021 Fireworks Retailer) कोर्स के लिए भुगतान जमा करें और [आग से सुरक्षा जांच \(fire inspection\)](#) के लिए आवेदन करें
2. फायरवर्क्स रिटेलर ट्रेनिंग का वीडियो देखें
3. फायरवर्क्स रिटेलर प्रश्नावली पूरी करें
4. लाइसेंस का आवेदन और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें। विवरणों के लिए licensing@brampton.ca पर संपर्क करें।
5. सिटी हॉल (City Hall) से खुद जाकर, 2021 फायरवर्क्स रिटेलर लाइसेंस प्राप्त करें। सिटी हॉल जाने से पहले मुलाकात बुक करना जरूरी है। मुलाकात www.brampton.ca/skiptheline पर बुक की जा सकती है।

पटाखा विक्रेता ट्रेनिंग में, बिक्री के लिए अनुमति दिए पटाखों के प्रकार, उन्हें स्टोर करने, डिस्प्ले में लगाने और बेचने के लिए नियम, खरीदारों को पटाखे बेचने के लिए ग्राहक आई.डी. (ID) जैसी शर्तें और सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन्स शामिल हैं।

जिन विक्रेताओं ने एक से अधिक स्थानों पर पटाखे बेचने हों, उनके लिए जरूरी है कि प्रत्येक स्थान का कम से कम एक संचालक कोर्स पूरा करे। विक्रेताओं के लिए, आग से सुरक्षा संबंधी जांच के लिए आवेदन करने की निम्नलिखित अंतिम तिथियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, जो [ऑनलाइन \(online\)](#) किया जा सकता है:

- दीवाली के पटाखों के लिए शुक्रवार, 15 अक्टूबर, 2021
- नववर्ष के पटाखों के लिए, शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का फायरवर्क्स बाइ-लॉ (Fireworks By-law), वर्ष में चार बार – विक्टोरिया डे, कैनेडा डे, दीवाली और नववर्ष को ही, केवल छोटी-रेंज के पटाखों (जो चलाए जाने पर 3 मीटर या 10 फुट से कम दूर जाते हैं) की बिक्री और उनके निजी प्रयोग की अनुमति देता है।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca